



प्रेस नोट

दिनांक-02.11.2022

थाना बरौर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी डेरापुर के कुशल नेतृत्व में थाना बरौर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त 1. अजीत कुमार पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम हैदरापुर थाना बरौर कानपुर देहात को दिनांक 02.11.2022 को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है।

विदित हो कि दिनांक 24.10.2022 को वादी श्री आदर्श पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम हैदरापुर थाना बरौर द्वारा अपने भाई उत्कर्ष की हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना बरौर पर मु0अ0सं0-78/2022 धारा 302/34 भादवि बनाम 10 नफर नामजद पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा टीमों का गठन करते हुये निर्देशित किया था, जिसके क्रम में पुलिस टीम के अथक प्रयासोपरांत हत्या की घटना में नामजद वांछित अभियुक्त अजीत कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. अजीत कुमार पुत्र रघुवीर सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम हैदरापुर थाना बरौर कानपुर देहात।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 78/2022 धारा 302/34 भादवि थाना बरौर कानपुर देहात

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री शिवशंकर थानाध्यक्ष बरौर जनपद कानपुर देहात।
2. उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह तोमर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।
3. का0 498 बाँबी सिंह थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।
4. का0 831 देवा मलिक थाना बरौर कानपुर देहात।
5. का0 301 अमित कुमार थाना बरौर कानपुर देहात।
6. चालक रामनरेश त्यागी थाना बरौर कानपुर देहात।

**मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात।**